



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 3009]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

**का.आ.4115(अ).**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

और रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/501, तारीख 22 सितम्बर, 2016 का, जिसमें उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्र के ब्यौरे अन्तर्विष्ट है, निरीक्षण कलेक्टर, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उपरोक्त उल्लिखित अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) को,—

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में के या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन के प्रति आक्षेप कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाई से हुई या सम्भवतः होने वाली किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिये प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा।

**अनुसूची**

राजेन्द्रा भूमिगत खदान (करकटी ब्लाक)

सोहागपुर क्षेत्र

जिला—शहडोल, मध्य प्रदेश

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/501, तारीख 22 सितम्बर, 2016)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	बंदोबस्त संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	छिरिहटी	33	1009	बुढ़ार (अविभाजित तहसील सोहागपुर)	शहडोल	65.068	भाग
2.	खलनाथ/खन्नाथ	32	1840	बुढ़ार (अविभाजित तहसील सोहागपुर)	शहडोल	42.225	भाग
3.	नौगवां	32	654	बुढ़ार (अविभाजित तहसील सोहागपुर)	शहडोल	56.289	भाग
4.	सिरोंजा	30	988	बुढ़ार (अविभाजित तहसील सोहागपुर)	शहडोल	29.256	भाग
<b>कुल : 192.838 हेक्टर (लगभग) या 476.51 एकड़ (लगभग)</b>							

सीमा वर्णन:

ब्लाक-1:

- क—ख रेखा बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के पूर्वी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।  
 ख—ग रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी, सिरोंजा के मध्य भाग से होती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है।  
 ग—घ रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और ग्राम सिरोंजा के पश्चिमी भाग से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है।  
 घ—क रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और ग्राम सिरोंजा के पश्चिमी, ग्राम छिरिहटी के पूर्वी भाग से होती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ब्लाक-2:

- ड—च रेखा बिन्दु 'ड' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'च' पर मिलती है।  
 च—छ रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के दक्षिणी दिशा में गुजरती हुई बिन्दु 'छ' पर मिलती है।  
 छ—ज रेखा बिन्दु 'छ' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ज' पर मिलती है।  
 ज—ड रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के पश्चिमी सीमा के समानान्तर गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

ब्लाक-3:

- झ—ञ रेखा बिन्दु 'झ' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के उत्तरी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।  
 ज—ट रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी में दक्षिणी और पूर्वी दिशा से गुजरती हुई बिन्दु 'ट' पर मिलती है।  
 ट—झ रेखा बिन्दु 'ट' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी के पश्चिमी सीमा के समानान्तर गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

ब्लाक-4:

- ठ—ड रेखा बिन्दु 'ठ' से आरंभ होती है और ग्राम खन्नाथ में उत्तर दिशा से गुजरती हुई बिन्दु 'ड' पर मिलती है।  
 ड—ढ रेखा बिन्दु 'ड' से आरंभ होती है और ग्राम खन्नाथ के उत्तरी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ढ' पर मिलती है।  
 ढ—ण रेखा बिन्दु 'ढ' से आरंभ होती है और ग्राम नौगवां के मध्य भाग, ग्राम छिरिहटी के उत्तरी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ण' पर मिलती है।  
 ण—ठ रेखा बिन्दु 'ण' से आरंभ होती है और ग्राम छिरिहटी, खन्नाथ के उत्तरी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।

### ब्लॉक-5:

त-थ रेखा बिन्दु 'त' से आरंभ होती है और ग्राम नौगवां के पूर्वी सीमा के समानान्तर गजरती हुई बिन्दु 'थ' पर मिलती है।

थ-द रेखा बिन्दु 'थ' से आरंभ होती है और ग्राम नौगवां में पश्चिमी दिशा से गुजरती हुई बिन्दु 'द' पर मिलती है।

द-ध रेखा बिन्दु 'द' से आरंभ होती है और ग्राम नौगवां में उत्तर दिशा से गुजरती हुई बिन्दु 'ध' पर मिलती है।

ध—त रेखा बिन्दु 'ध' से आरंभ होती है और ग्राम नौगवां के उत्तरी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'त' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/18/2016-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COAL**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December,2016

**S.O. 4115(E).**—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number SECL/BSP/GM/PLG/LAND/501, dated the 22nd September, 2016 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Collector, District Shahdol (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the aforesaid Schedule;

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may-

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land; or
- (ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
- (iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act, in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act.

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattishgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

## SCHEDULE

Rajendra UG Mine (Karkati Block), Sohagpur Area,

District-Shahdol, Madhya Pradesh

(Plan bearing number SECL/BSP/GM /PLG/LAND/ 501, dated the 22nd September, 2016)

[illegible]

---

Boundary description:

## Block-1:

- A-B Line starts from point 'A' and passes through eastern part of village Chhirihti and meets at point 'B'.
- B-C Line starts from point 'B' and passes through middle part of village Chhirihti and Siraunja and meets at point 'C'.
- C-D Line starts from point 'C' and passes through western part of village Siraunja and meets at point 'D'.
- D-A Line starts from point 'D' and passes through western part of village Siraunja, eastern part of village Chhirihti and meets at starting point 'A'.

## Block-2:

- E-F Line starts from point 'E' and passes through western part of village Chhirihti and meets at point 'F'.
- F-G Line starts from point 'F' and passes towards south in village Chhirihti and meets at point 'G'.
- G-H Line starts from point 'G' and passes towards west through western part of village Chhirihti and meets at point 'H'.
- H-E Line starts from point 'H' and passes along parallel to western boundary of village Chhirihti and meets at starting point 'E'.

## Block-3 :

- I-J Line starts from point 'I' and passes through northern part of village Chhirihti and meets at point 'J'.
- J-K Line starts from point 'J' and passes towards south and east in village Chhirihti and meets at point 'K'.
- K-I Line starts from point 'K' and passes along parallel to western boundary of village Chhirihti and meets at starting point 'I'.

## Block-4:

- L-M Line starts from point 'L' and passes towards north in village Khalnath/Khannath and meets at point 'M'.
- M-N Line starts from point 'M' and passes through northern part of village Khalnath/ Khannath, Nougawan and meets at point 'N'.
- N-O Line starts from point 'N' and passes through middle part of village Nougawan, northern part of village Chhirihti and meets at point 'O'.
- O-L Line starts from point 'O' and passes along northern part of village Chhirihti, Khalnath/ Khannath and meets at starting point 'L'.

## Block-5 :

- P-Q Line starts from point 'P' and passes parallel to eastern boundary of village Nougawan and meets at point 'Q'.
- Q-R Line starts from point 'Q' and passes towards west in village Nougawan and meets at point 'R'.
- R-S Line starts from point 'R' and passes towards north in village Nougawan and meets at point 'S'.
- S-P Line starts from point 'S' and passes along northern part of village Nougawan and meets at starting point 'P'.

[F. No. 43015/18/2016-PRIW-I]

R.P.GUPTA, Jt. Secy.